

प्रेस नोट दिनांक-03.10.2021

(1). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 03.10.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैंड बाजार मऊ का भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम भगवतपुर, कोलौहा, भवानीपुर मे भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी व पर्यटक स्थल शबरी जल प्रपात में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा बरगढ़ में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। एंटी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

भ्रमण के दौरान महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओ की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हैल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

(2). आज दिनांक-03.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी नवरात्रि त्यौहार, रामलीला, दशहरा त्यौहार एवं मूर्ति विसर्जन के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी मानिकपुर की अध्यक्षता में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर की उपस्थिति में थाना मानिकपुर में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता की उपस्थिति में पीस कमेटी के सदस्यों के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी। गोष्ठी में थाना क्षेत्र के पीस कमेटी के सदस्यों, दुर्गा पण्डाल कमेटी के सदस्यों, रामलीला कमेटी के सदस्यों को कोविड-19 के नियमों को पालन करने एवं शासन द्वारा निर्गत नियमों का पान करने हेतु बताया गया। मूर्ति रखने एवं विसर्जन के सम्बन्ध में तथा सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।